



एक भारत श्रेष्ठ भारत

Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

99. I am not feeling well.

ASSAMESE	মই সুস্থ অনুভৱ কৰা নাই।	Moi sustho anubhob kora nai.
BENGALI	আমার শরীরটা ভালো লাগছেনা।	Aamar sorirta valo lagchhe na.
BODO	আং মোজাং মোনাখৈ।	Ang mwjang mwnakwi.
DOGRI	मेरी सेहत ठीक नेई ऐ।	Meree sehat theek neiin ai.
GUJARATI	મારી તબિયત સારી નથી.	Maari tabiyat saari nathi.
HINDI	मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है.	Mera swashtya theek nahi hai.
KANNADA	ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ.	Nanna aarogya chennagilla.
KASHMIRI	مے چھنہ صحت ٹھیک۔	Mye chu ne sehat theekh.
KONKANI	म्हाका बरें दिसना	Mhakaa barem disanaa.
MAITHILI	हम नीक नहीं महसूस क रहल छी।	Ham nik nahi mahsoos ka rahal chhi.
MALAYALAM	എനിക്കു് അത്ര സുഖം തോന്നുന്നില്ല.	Enikk athra sukham thonnunnilla.
MANIPURI	ঐ হকচাং নুংঙাইতে	Ei hakchang nungaite.
MARATHI	मला बरे वाटत नाही	Malaa bare vaatata naahi.
NEPALI	मलाई केही बिसञ्चो महसुस हुँदैछ।	Malai kehi bisancho mahsush hundai chha.

ODIA	ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି	Mun asustha anubhab karuchi.
PUNJABI	ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।	Meri tabiyat theek nahi hai.
SANSKRIT	अहम् अनारोग्यम् अनुभवामि।	Aham anārōgyam anubhavāmi.
SANTALI	इंज दो मोज बंज अटकार दा।	In' do moj ban' atkar da .
SINDHI	ماڻھو کي ناچاق محسوس ڪري رهيو آهيان.	Maaon paan khe na chalk mahesoos kare rayo aahiyan
TAMIL	எனது உடல்நிலை சீராக இல்லை.	Enadhu udalnilai seeraga illai.
TELUGU	నాకు ఆరోగ్యం బాగుండలేదు.	Nāku ārōgyam bāguṇḍalēdu.
URDU	میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔	Meri tabeeyat theek nahi hai.